



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032025-261889
CG-DL-E-24032025-261889

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 152]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 24, 2025/ चैत्र 3, 1947

No. 152]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 24, 2025/ CHAITRA 3, 1947

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2025

सा.का.नि. 187(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दूरसंचार विभाग, दूरसंचार सहायक (दू. स.) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2024 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार विभाग, दूरसंचार सहायक, समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- दूरसंचार विभाग, दूरसंचार सहायक समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2024, की अनुसूची में,
(i) स्तंभ (7) के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाए, अर्थात:-

“किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से दूरसंचार या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी या साइबर सुरक्षा और बिग डेटा विश्लेषण या इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) या इंस्ट्रुमेंटेशन में न्यूनतम तीन वर्ष का इंजीनियरिंग डिप्लोमा; या

किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में विज्ञान स्नातक।

टिप्पण: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।”

(ii) स्तंभ (10) के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाए, अर्थात: -

“कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 100% सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।”

[फा . सं. – 9-11(02)/2024-स्थापना(आर.आर.)]

रोशनी सोहनी, उप महानिदेशक (स्थापना)

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 762(अ), तारीख 11 दिसम्बर, 2024 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2025

G.S.R. 187(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Telecommunications, Telecom Assistant (TA) Group ‘C’ Post Recruitment Rules, 2024, namely: -

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Department of Telecommunications, Telecom Assistant Group ‘C’ Post Recruitment (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Department of Telecommunications, Telecom Assistant Group ‘C’ Post Recruitment Rules, 2024, in the Schedule,

(i) for the existing entry under column (7) the following shall be substituted, namely: -

“Minimum three years Engineering Diploma in Telecommunications or Electronics or Electrical or Electronics and Communications or Computer Science or Information Technology or Cyber Security and Big Data Analysis or Internet of Things (IoT) or Instrumentation from a recognised Institute or University; or

Bachelor of Science in Electronics or Electronics and Communication or Computer Science or Information Technology from a recognised University or Institute.

Note: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.”

(ii) for the entry under column (10) the following shall be substituted, namely: -

“100% by Direct Recruitment through Staff Selection Commission failing which by deputation (including short-term contract).”

[F.No. 9-11(02)/2024-Estt(RR)]

ROSHNI SOHNI, Dy. Director General (Establishment)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 762(E), dated the 11th December, 2024.